



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 853) पटना, मंगलवार, 27 अगस्त 2024

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय  
(योजना एवं विकास विभाग)

अधिसूचना  
22 अगस्त 2024

सं० अ०सां०नि०/स्था०3-01/2018/1370—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020” का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ—

- यह नियमावली “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024” कही जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020” में नियम-3 का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा—

“3. (i) यह संवर्ग राज्य संवर्ग होगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगा।

(ii) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी —

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

- (iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा वेतनमान/वेतनस्तर वही होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य सरकार समय-समय पर इस संवर्ग के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग में स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी।
- (iv) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।”
3. “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020” के नियम-5 का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा —

5. (i) (क) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए;

(ख) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

बशर्त कि संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा चयन एवं रोस्टर की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो।

परन्तु, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में हुए विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी;

(ii) सीधी भर्ती के शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होगा।

(iii) (क) संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता की गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती का अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम-(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| (क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता  | पूर्णांक<br>-75 अंक |
| (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो।   | -25 अंक             |
| (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) |                     |

**कुल - 100 अंक**

**नोट :-** परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

अर्थात् अधिमानता अंक =(परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) x 75

(ख) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-आफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(घ) प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,**  
के० सेंथिल कुमार,  
प्रधान सचिव।

*The 22<sup>nd</sup> August 2024*

**No.-D.E.S/Est.03-01/2018/1370—In exercise of the powers conferred by the provision of Article-309 of the constitution of India, The Governor of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Sub ordinate Statistical Cadre Rule,2020 :-**

**1. Abbreviation, extension and beginning:-**

- (i) These rules will be called "Bihar Subordinate Statistical Cadre (Amendment) Rule, 2024.
- (ii) It will extend to the Whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

**2. "Substitution of Rule-3 in Bihar Subordinate Statistical Cadre Rules,2020|-Rule- 3 of the said rules will be replaced as follows:-**

"3. (i) This cadre will be a state cadre whose administrative control will be under the Directorate of Economics & Statistics, Planning & Development Department.

(ii) The structure of this cadre will be as follows:-

Sl. No.	Designation	Category	Status
1	Sub Statistical Officer/Block Statistical Officer	Basic Grade	Non Gazetted
2	Assistant Statistical Officer	First Promotion Level	Gazetted

- (iii) The number of sanctioned posts of different categories to this cadre and the pay scale/pay level will be the same as determined by the State Government from time to time. The State Government may approve creation/deletion of permanent/temporary posts in this cadre in addition to the sanctioned posts of this cadre.
- (iv) The employees appointed and working before the coming into force of these rules will automatically be considered included in this cadre and appointed under these rules".

**3. "Substitution of Rule-05 of Bihar Subordinate Statistical Service Cadre Rules, 2020 |-Rule-5 of the said rules will be substituted as follows:-**

Rule 5 (i) (a) The age of the candidate should be minimum 21 years as on 1<sup>st</sup> August of the application year. Category wise maximum age should be within the age limit decided by the State Government (General Administration Department) from time to time.

(b) Junior Statistical Assistant/Block Statistical Supervisor/ Investigator already employed on contract basis will be given relaxation in the maximum age limit for a period equal to the period worked on contract, provided appointment on contract has been made by the competent authority against sanctioned post after following due process of selection and roster.

But in the light of provisions of General Administration Department, relaxation in the maximum age limit will be admissible once for the period of delay in conducting the examination on the same post.

- (ii) Educational Qualification for direct recruitment will be graduation in an one of the subjects Economics/Mathematics/Statistics from a recognized university.
- (iii) (a) Selection for appointed to posts in the basic category of the cadre will be done by the commission after calculating the marks obtained in the competitive examination conducted by the commission and the preference of the work done on the basis of contract. Candidates having experience of working on the post of Junior Statistical

Assistant/ Block Statistical Supervisor/ Investigator on contract basis, who fulfil the eligibility criteria for recruitment in this cadre, will be given additional marks in the selection as per sub-rule (b) of this rule.

(b) The merit list of the candidates will be prepared on the following basis:-

(a) Preference for marks obtained in the written examination conduct by the commission-

**full marks**

-75 marks

(b) Maximum preference for working on contract basis will be admissible if contract appointment is on same post -25 marks

(5 marks for every working year with a maximum limit of 25 marks.)

In any year for the numerator of the number of working days, after multiplying in the number by 5, the proportional figure obtained by dividing 365 will be added).

**Total-100 marks**

**Note:-**To calculate the weightage of marks in the examination, it will be obtained by multiplying the percentage of the marks obtained in the examination by 0.75. That is preference marks (total marks obtained in the examination divided by full marks) X75.

(b) The duration of working on contract basis will be decided on the basis of salary payment certificate issued by the concerned controlling officer. For this purpose the period up to the cutoff date mentioned in the advertisement published by the commission can be counted for work experience.

(c) Regarding the nature of competitive examination, syllabus and conduct of the examination, all decisions will be taken by the commission.

*By order of The Governor of Bihar,  
K. Senthil Kumar,  
Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 853-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>